

Date: March 06, 2024

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited

(Scrip Code: 532777)

Sub: <u>Intimation of Publication of Public Notice to the shareholders</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Public Notice to the shareholders of the Company for updation of their e-mail address, published in the following editions:

- Financial Express (National Daily newspaper) on March 06, 2024

- Jansatta (Daily newspaper of the State) on March 06, 2024

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer











FINANCIAL EXPRESS

... continued from previous page.

Place: Emakulam, Kerala Date: March 05, 2024

rpcvrkswami@gmail.com

Date: 6th March 2024

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled "Risk Factors" on page 26 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP and the section titled at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.popularmaruti.com and centrum Capital Limited, Nuvama Wealth Management Limited, Nuvama Wealth Manageme

Availability of the Abridged Prospectus: Acopy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the offer at www.popularmaruti.com, www.nuvama.com and www.centrum.co.in and www.linkintime.co.in, respectively AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of the Company POPULAR VEHICLES AND SERVICES LIMITED. Tel: +91 22 6807 7100; Nuvama Wealth Management Limited (formerly known as Edelweiss Securities

Limited), Tel: +91 22 4009 4400 and Centrum Capital Limited, Tel: +91 22 4215 9000; Syndicate Members: Nuvama Wealth Management Limited, (formerly known as Edelweiss Securities Limited), Tel: +91 22 4215 9000 and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI. Sub-Syndicate Members: Almondz Global Securities Limited, Axis Capital Limited, Axis Capital Limited, Axis Capital Limited, Axis Capital Services Ltd., Centrum Broking Private Limited, Axis Capital Services Ltd., ANS Pvt Limited, Axis Capital Services Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., Eureka Stock & Share Broking Private Limited, Axis Capital Services Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., Eureka Stock & Share Broking Private Limited, Axis Capital Services Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., Eureka Stock & Share Broking Private Limited, Axis Capital Services Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., Eureka Stock & Share Broking Private Limited, Dalai & Broacha Stock Brokers Ltd., DB(International) Stock Brokers Ltd., DB Services Ltd., Finwizard Technology Private Limited, HDFC Securities Limited, HDFC Securities Limited, Financial Services Ltd., Javeri Securities Limited, Financial Services Limited, Financial Services Ltd., Javeri Securities Ltd., Javeri Securities

LKP Securities Limited, Inventure Growth & Securities Ltd., Manwadi Shares & Finance, Motilal Oswal Financial Services Ltd., Prabhudas Lilladher Pvt Limited, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, Religare Securities Ltd., RR Equity Brokers Pvt. Limited, SBICAP Securities Limited, Sharekhan Ltd., SMC Global Securities Limited, SS Corporate Securities Limited, Systematix Shares and Stocks (India) Limited, Trade Bulls Securities (P) Ltd, Way2wealth brokers Pvt Ltd and YES Securities (India) Limited Escrow Collection Bank and Refund Bank: Axis Bank Limited

Public Offer Account Bank: ICICI Bank Limited · Sponsor Banks: Axis Bank Limited and ICICI Bank Limited UPI: UPI Bidders can also bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For POPULAR VEHICLES AND SERVICES LIMITED On behalf of the Board of Directors Varun T.V. Company Secretary and Compliance Officer

Adfactors 612

POPULAR VEHICLES AND SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP dated March 4, 2024 with RoC on March 05, 2024. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchange of India Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com, respectively, on the websites of the BRLMs. i.e. ICICI Securities Limited. Nuvama Wealth Management known as Edelweiss Securities Limited) and Centrum Capital Limited at www.icicisecurities.com, www.nuvama.com and www.centrum.co.in, respectively. Any potential investors should note that investors should note that investors should note that investors a high degree of risk and for details relating to such risk, see 'Risk Factors' on page 26 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. Investors should instead rely on the information disclosed in the RHP.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States, and the Equity Shares offered in the Offer may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares offered in the Offer are not being offered or sold in the United States.

KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: U74999WB2008PTC126964 LIQUIDATOR -CVR Krishnaswami

(Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-19/12217) Notice is given to the public in general that the following Asset Lot of KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED (in Liquidation) ("Corporate Debtor" (in liquidation vide order of Hon'ble NCLT dated 01.07.2019) is proposed to be soldin accordance with clause (c) of regulation 32, sub-regulation (1) of regulation 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 through e-auction platform. The interested applicants may refer to the detailed Sale Process Memorandum by writing to liquidation.kohinoorpulp@gmail.com with a copy to

Date and time of e-Auction	March 27, 2024 from 11:00 Hrs. IST	
Last Date for Submission of Bid Documents	March 14, 2024	
Last Date for Submission of Earnest Money Deposit	March 25, 2024 17.00 hrs	

Particulars of The Asset	Reserve Price	Refundable Earnest Money Deposit
Machinery purported to be Cooking plant and fibreline	4,00,00,000.00 [Rupees Four crores Only]	40,00,000.00 [Rupees Forty Lacs only]

an "AS IS WHERE BASIS". "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS' and "NO RECOURSE BASIS" without any representation, warranty or indemnity and will be conducted "online" This Notice shall be read in conjunction with the Sale Process Memorandum

dated 6th March 2024 containing details of the Assets, online E-Auction Bio Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of the E-Auction which are available on the site https://www.eauctions.co.in or send an e-mail to liquidation.kohinoorpulp@gmail.com/ rpcvrkswami@gmail.com *Disclaimer: The Advertisement purports to ascertain the interest of Bidders

and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process involved herein, without giving reasons, at any time, and in any respect. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned timelines, shall be notified Place: Kolkata CVR Krishnaswami

March 2024 Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-19/12217
Liquidator for KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED

Lindsay street Kolkata 700083 E-mail: liquidation.kohinoorpulp@gmail.com

MARSONS LIMITED CIN: L31102WB1976PLC030676

Address: C/O Naresh nath Mookherjee shipping private Limited,12/1

Registered Office: Marsons House, Budge Budge Trunk Road, Vill. Chakmir, Maheshtala, Kolkata- 700 142, West Bengal, Contact No. 033 40616212 Email: info@marsonsonline.com, Website: www.marsonsonline.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Extra-Ordinary General Meeting ("EGM" of the members of Marsons Limited ("Company") will be held on Saturday 30th March, 2024 at 2.00 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") to transact business as mentioned in EGM notice & seek approval of shareholders of the company for following resolutions: -

Sr. No. Resolution seeking approvals of the Shareholders in the EGM 1 Jeeus of Equity Shares on Profesential basis

The pla	ace of meeting shall deemed to be the Registered Office of the Company.
2.	Regularize Appointment of Ms. Varsha Kedia (DIN: 09774480) as Non-Executive Women cum Independent Director
100	issue of Equity Shares on Preferential basis

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended from time to time, read with MCA General Circular No. 14/2020 dated 08th May, 2020, MCA General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 03/2022 dated 5th May, 2022, 10/2022 dated 28th December, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 09/2023 dated 25th September 2023 and SEBI Circular dated 12th May, 2020, SEBI Circular dated 15th January, 2021, and pursuant to regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("the Listing Regulations") the Extra Ordinary General Meeting of the Company is scheduled on Saturday 30th March 2024 at 2.00 P.M., through VC/OAVM which does not require physical presence of members at the common venue

As per the aforesaid circulars the electronic copies of Notice of EGM has been sent by e-mail to those eligible members whose e-mail address are registered with Depositories/ Depository Participant(s)/Company's Registrar and Share Transfer Agent /the Company. The members whose email addresses are not registered can download the said Notice from Company's Website www.marsonsonline.com. The Notice of EGM has been sent through email to all the members on Tuesday, 5th March, 2024.

Members will have an opportunity to cast their votes remotely or during the EGM on the business set forth in the Notice of EGM through electronic voting systems. The manner of remote e-voting or e-voting during the EGM for members has been provided in the Notice convening EGM. Instructions for attending EGM through VC/OAVM are also provided in the said notice.

The Cut-off date/record date for purpose of determining eligibility of Members to cast vote electronically and attend the EGM through VC/OAVM of the Company is Saturday, 23rd March 2024,

The remote e-voting period begins from 9.00 A.M. on Wednesday, 27th March 2024 and ends on Friday, 29th March, 2024 at 5.00 P.M for the shareholders of the Company. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. During this period shareholders of the Company holding shares either in

physical form or in dematerialized form as on cut-off/record date of is Saturday, 23rd March 2024 may cast their vote electronically. E-voting shall be made available at the EGM and the members who have not casted their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the EGM. Members who have casted their votes by remote e-voting can participate in the EGM but shall not entitled to cast votes at the EGM.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending the Notice of EGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

In line with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 17/2020 dated

13th April, 2020, the Notice calling EGM has been uploaded on the website of the Company at www.marsonsonline.com . The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com . The EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM) i.e. www.evotingindia.com.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43 or toll free no

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

Members may also write to the Compliance Officer for any grievances connected with facility for voting by electronic means at following:

Name: Ms. Uttara Sharma

Designation: Company Secretary and Compliance Officer Address: Marsons House, Budge Budge Trunk Road, Vill. Chakmir, Maheshtala, Kolkata- 700 142, West Bengal Email id: uttarasharma14@gmail.com, Phone No: 9007004231

By Order of the Board of Directors

Binay Kumar Agarwal Director

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF

KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED

(CIN: L67120MH1979PLC021315) ("KSHITIJ"/ "KIL" / "TARGET COMPANY" / "TC")

Registered Office: 509, Loha Bhavan 93, P. D'mello Road, Carnac Bunder Mumbai City, Mumbai – 400009, Maharashtra Phone No.: 022-23480344, (+91) 9830898807; Email id: ksh.inv.ltd@gmail.com; Website: www.kiltd.in

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Rahul Agrawal (Acquirer -1) and Mr. Rohit Agrawal (Acquirer -2) pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 8,19,624 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26,00% of the emerging equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) on 19th July, 2023.

The Board of Directors of the Target Company, in their meeting held on 04th March, 2024 has allotted, on a preferential basis, 25,23,000 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each (the "Equity Shares") of the Target Company at an issue price of Rs. 10/- per Equity Share aggregating to Rs. 252.30 Lacs. out of which 18,47,000 equity shares has been issued to Acquirers (9,23,500 shares to Acquirer-1, i.e., Mr. Rahul Agrawal and 9,23,500 shares to Acquirer-2, i.e. Mr. Rohit Agrawal) and 6,76,000 equity shares has been issued to other public category investors. Preferential Allotment of 18,47,000 Equity Shares of face value of Rs. 10/- each of the Target Company at an issue price of Rs. 10/- per Equity Shares, representing 58.59% of the Emerging Equity Share & Voting Capital of the Target Company, to the Acquirers.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. RAHUL AGRAWAL AND MR. ROHIT AGRAWAL



NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED 804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road,

Andheri East, Mumbai - 400059.

Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: March 05, 2024

KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED (CIN: L67120MH1979PLC021315)

("KSHITIJ"/ "KIL" / "TARGET COMPANY" / "TC")

Registered Office: 509, Loha Bhavan 93, P. D'mello Road, Carnac Bunder Mumbai City, Mumbai - 400009, Maharashtra Phone No.: 022-23480344, (+91) 9830898807; Email id: ksh.inv.ltd@gmail.com; Website: www.kiltd.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Kshiti Investments Limited ("KIL" or "KSHITIJ" or "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	05.03.2024	
Name of the Target Company	Kshitij Investments Limited	
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 8,19,624 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Emerging Equity and Voting Share Capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirers, at a price of Rs. 10.20/- per Equity share (Including interest @ 10% p.a. for delay in payment beyond Scheduled Payment Date) payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.	
Name(s) of the Acquirers	Mr. Rahul Agrawal and Mr. Rohit Agrawal	
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited	
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Chairman: Mr. Sanjib Dutta Member: Mr. Ramlakhan Shiv Singh Member: Mr. Suvarna Shinde	
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	Member of IDC holds any equity shares in the Target Company.	
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	TO DELICENTATION PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	
IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.		
Trading in the Equity shares/other	Not Applicable	

securities of the acquirers by IDC

fair and reasonable

Recommendation on the Open offer, The IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable. However, the as to whether the offer, is or is not, shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the IDC recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirers as the Offer price of

Summary of reasons for recommendation

Rs. 10.20/- per fully paid up equity share (Including interest @ 10% p.a. for delay in payment beyond Scheduled Payment Date) is fair and reasonable based on the following

 The Offer price appears to be reasonable considering market price of Target Company. 2. The offer price of Rs. 10.20/- per fully paid -up equity share offered by the Acquirers is higher than to price paid by Acquirers in SPA to Sellers and for shares acquired of

The equity shares of the Target Company are infrequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

 The offer price of Rs. 10.20/- per fully paid -up equity share offered by the Acquirers is higher than the Fair Value of equity share of the Target Company which is Rs. 8.00/-(Rupees Eight only) as certified by Suman Kumar Verma, Cost Accountant and Registered Valuer, (IBBI Registration No.: IBBI/RV/05/2019/12376), having her office situated at Lane No.10, Indra Park, Palam Colony, New Delhi-110045, India; Tel. No.: +91 9716633301; Email: cmaskverma@gmail.com; vide valuation certificate dated July 12, 2023. The said valuation is carried out considering accepted valuation methodologies as approved by the Hon'ble Supreme court for the merger of TOMCO

The Offer Price of Rs. 10.20/- per fully paid- up equity share offered by the Acquirers includes interest @ 10% per annum as prescribed in Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations for any delay in payment beyond the Scheduled Payment Date Keeping in view above facts IDC is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable

and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. Details of Independent Advisors, if None

Any other matter to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes

all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and For Kshitij Investments Limited

Sanjib Dutta Place: Mumbai Chairman-Committee of Independent Directors Date: 05.03.2024 DIN: 08419495 SALE NOTICE

HINDUSTHAN SMALL TOOLS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 19th December 2022) Registered Office: 30 Chowringhee Road, Kolkata-700016, West Bengal CIN: U22219WB1955PTC022547

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 5th April 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 20th March 2024 (Upto 11:59 PM IST) Last Date of EMD Submission: 3rd April 2024 (Upto 5: 00 PM IST)

Sale of Assets and Properties owned by Hindusthan Small Tools Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench vide order dated 19.12.2022.

Lot	Details of assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (Rs)	Incremental value (Rs
Lot-1	Part of Ground Floor having super built up area of 11,084 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2)	4,36,00,000/-	43,60,000/-	5,00,000/-
Lot-2	Entire First Floor having super built up area of 13,565 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2)	5,27,10,000/-	52,71,000/-	5,00,000/-
Lot-3	All that First Floor measuring 2386 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	1,17,00,000/-	11,70,000/-	1,00,000/-
Lot-4	Entire Second Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	2,41,90,000/-	24,19,000/-	5,00,000/-
Lot-5	Entire Third Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	2,41,90,000/-	24,19,000/-	5,00,000/-
Lot-6	Entire Fourth Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	2,38,90,000/-	23,89,000/-	5,00,000/-
Lot-7	Flat at Premises no-2102, 3rd Floor, RS Khatiyan No- 119 &121, RS Dag No-92, KMC, Nayabad, Ward No-109, South 24 Pargana admeasuring 625 square feet more or less.	10,60,000/-	1,06,000/-	1,00,000/-
	Lot-1 Lot-2 Lot-3 Lot-4 Lot-5 Lot-6	Lot-1 Part of Ground Floor having super built up area of 11,084 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-2 Entire First Floor having super built up area of 13,565 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-3 All that First Floor measuring 2386 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-4 Entire Second Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-5 Entire Third Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-6 Entire Fourth Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-7 Flat at Premises no-2102, 3rd Floor, RS Khatiyan No- 119 &121, RS Dag No-92,	Lot-1 Part of Ground Floor having super built up area of 11,084 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-2 Entire First Floor having super built up area of 13,565 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-3 All that First Floor measuring 2386 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-4 Entire Second Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-5 Entire Third Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-6 Entire Fourth Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-7 Flat at Premises no-2102, 3rd Floor, RS Khatiyan No- 119 &121, RS Dag No-92, 10,60,000/-	Lot-1 Part of Ground Floor having super built up area of 11,084 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-2 Entire First Floor having super built up area of 13,565 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2) Lot-3 All that First Floor measuring 2386 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-4 Entire Second Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-5 Entire Third Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-6 Entire Fourth Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2) Lot-7 Flat at Premises no-2102, 3rd Floor, RS Khatiyan No- 119 &121, RS Dag No-92, 10,60,000/- 1,06,000/-

Important Notes:

 The sale shall be on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) 2. The assets as mentioned in Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5 and Lot-6 in the table above are situated at 1458 Garia Main Road, Ward No. 29,

District-South 24 Parganas, Kolkata, West Bengal 3. As per records available, the property at Lot-3, Lot-4, Lot-5 and Lot-6 is given on lease to HHP Hospital Private Limited (Formerly known as

Hindusthan Health Point Pvt. Ltd.) on a long-term basis vide Lease Deed dated 02.03.2010 for a period of 55 years. 4. The e-auction shall be subject to order of Hon'ble NCLT to enlarge/extend liquidation period beyond 18.12.2023.

5. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the

Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability.

All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net.

The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

> **KULDEEP VERMA** Liquidator of Hindusthan Small Tools Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501, Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/cirp.hstpl@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024

Date: 06.03.2024

Place: Kolkata

info**edge** INFO EDGE (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19

Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095 Website: www.infoedge.in; Email: investors@naukri.com FOR ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Members of Info Edge (India) Ltd. ("the Company") are hereby informed that the Ministry of

Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated September 25, 2023 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") allowed companies to take all decisions of urgent nature requiring the approval of members, other than items of ordinary business or business where any person has a right to be heard, through the mechanism of postal ballot/electronic voting in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Board of Directors of the Company at its meeting held on February 13, 2024, has proposed to

seek the consent of the shareholders of the Company through postal ballot process. In terms of the MCA Circulars, the Company will send Postal Ballot notice in electronic form only and

physical copy of the Postal Ballot notice and Postal Ballot forms will not be sent to the shareholders. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get

their email addresses registered by following the procedure given below: a. Registration of email address by shareholders holding shares in Physical form: The Members of the Company holding Shares of the Company in physical Form and who have not

registered their e-mail addresses may get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd, by clicking the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e-mail address and also upload the image of PAN, Aadhar Card, share certificate & Form ISR-1, ISR-2 in PDF or JPEG format (upto 1 MB). On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of Dematerialized holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant

. Permanent Registration of e-mail address by shareholders holding shares in Dematerialized

. Temporary Registration of e-mail address by shareholders holding shares in Dematerialized

The Members of the Company holding Shares of the Company in Dematerialized Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd. by clicking the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and e-mail address and also upload the image of CML, PAN, Aadhar Card & Form ISR-1 in PDF or JPEG format (upto 1 MB). On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.

In case of any queries, shareholder may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in, under Help section or call on Tel no.: 022-49186000.

Those shareholders who have already registered their e-mail address are requested to keep their

e-mail addresses validated with their Depository Participants/the Company's RTA. The postal ballot notice will be sent to all the shareholders in accordance with the applicable laws on

> By Order of the Board of Directors For Info Edge (India) Limited

Date: March 05, 2024 Place: Noida

Jaya Bhatia **Company Secretary & Compliance Officer**

Date: 5th March, 2024 Place : Kolkata

DIN: 00566931

financialexp.epapr.in









their registered e-mail addresses in due course.

New Delhi

शुद्धि-पत्र दिनांक 28.02.2024 को जनसत्ता

फाईनेंनशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित मेगा ई—नीलामी नोटिस के सम्दर्भ मे शाखाः–एसएमई सहारनपुर शाखा (2981) दिल्ली रोड , सहारनपुर— 247001 ऋणकर्ताः– मैसर्स स्टार इंटरप्राइजेज (प्रोप.- श्री मजहर हसन) नदीम कॉलोनी ईदगाह रोड, सहारनपुर–247001 (यूपी) की ई-नीलामी रदद कर दी गई है। शेष यथावत रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी



ई- निविदा सं.: 07/2023-24, दिनांक : 04.03.2024 कार्यालय का नाम : कार्यकारी अभियंता, परि० एवं अनु० मण्डल, बी.बी.एम.बी., पंजाबी बाग,

नई दिल्ली- 35। कार्य का नाम : दिल्ली के काका नगर स्थित रेस्ट कैंप डी-II 93 के मरम्मत के हेतु कार्य। निविदा दस्तावेज डाउनलोड 04.03.2024 - 18:00 बजे से निविदा ऑनलाइन जमा करने की तिथि एवं समय 03.04.2024 - 15:30 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि एवं समय 04.04.2024 - 15:30 बजे से विस्तृत निविदा दस्तावेज, प्री-क्वालिफाईंग शर्तें और धरोहर राशि के लिए कृपया बीबीएमबी की वैबसाईट www.bbmb.gov.in अथवा www.etenders.gov.in देखें।

१५१८-पीआर टीएस-४ आज व कल के लिए उर्जा बचाएँ



नेनीताल बेंक शाखा - ई-69-बी, बनी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर-302016 राजस्थान फोन-0141-2281557, 7455802334

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेत्)

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल वें के , ई-69-बी, बनी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपूर-302016, राजस्थान शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्क्शन ऑफ फाइनेन्शियल ऐसेट स एण्ड , इनफोर्स मेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2 0 0 2 के सेक्शन 13(2) के नियम 3 के अधीन 6 0 दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भूगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर दिनांक 29.02.2024 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन—देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चें की सीमा तक बैं क प्रभार के अधीन हों गे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा– 13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है । (1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. विजन कम्प्यूटर्स (प्रोपराईटरशिप/कर्जदार), द्वारा इसके प्रोपराईटर मौहम्मद तौसिफ पुत्र मंजूर अहमद, पंजीकृत पता-प्लॉट नं. 132, पेंटर कॉलोनी, नहारी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान–302016 दूसरा पता– दुकान नं. 5, प्लॉट नं. 1619, खेजरो का रास्ता, चाँद पोल बाजार, दुंगरी हाउस के पास, एवं रायसर प्लॉजा, इन्द्रा बाजार, राजस्थान-302001 2. मीहम्मद तौसिफ पुत्र मंजूर अहमद (प्रोपराईटर/कर्जदार), नि० प्लॉट नं. 132, पेंटर कॉलोनी, नहारी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान-302016 3. रूबीना बानो पत्नी रोशन खान (जमानती), नि० प्लॉट नं. ए-60, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, अमानिशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान-302016 दूसरा पता- प्लॉट नं. 29-बी, आर.के. नगर, शिव नगर, पुलिस लाईन, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान–324001 4. रोशन खान पुत्र बाबू खान (जमानती), नि० प्लॉट नं. ए–60 मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, अमानिशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान-302016 दूसरा पता- प्लॉट नं. 29-बी, आर.के. नगर, शिव नगर, पुलिस लाईन, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान-324001

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 04.08.2023 को रु. 51,05,948.00 (रुपये इक्यायन लाख पांच हजार नी सी अडतालिस मात्र दिनांक 03.08.2023 तक) दिनांक 04.08.2023 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली यदि कोई हो।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (रिहायशी फ्लैट) के सभी भाग व हिस्से जो कि प्रथम तल, प्लॉट नं. ए–60, शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर–302016 में स्थित है। क्षेत्रफल 234 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक जयपुर-।। के कार्यालय में बही नं. 01, जिल्द नं. 723, पेज नं. 4, क्रमांक 2011052007119 एवं अतिरिक्त बही नं. 01, जिल्द नं. 2877, पेज नं. 36 से 47, दिनांक 20.06.2011 को रोशन खान पुत्र बाबू खान के नाम पर दर्ज है। सीमाएं - उत्तर में प्लॉट नं. ए-60-ए, दक्षिण में प्लॉट नं. ए-60 का दक्षिणी हिस्सा, पूरब में प्लॉट नं. ए-60-1 पश्चिम में प्लॉट नं. एफ-58

(2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. नेचर कनेक्ट इंटरनैशनल (कर्जदार), द्वारा इसके पार्टनर्स अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश थानवी एवं मौहम्मद अली पुत्र बाबू खान, पंजीकृत पता – ए-60, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, अमानीशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर – 302016 दूसरा पता - 29, आर.के. नगर, शिव नगर, तहसील लाडपुरा, कोटा राजस्थान-324001 2. अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश थानवी (पार्टनर), नि० 1213, वीर माँहल्ला, नीम की गली, कोतवाली पुलिस चौकी, नवचौकिया, जोघपुर-342001 दुसरा पता- 3-डब्ल-15, कुडी भगताशनी हाउजिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान-342005 3. मोहम्मद अली पुत्र बाबू खान, (पार्टनर), नि० २९, आर.के. नगर, शिव नगर, तहसील लाडपुरा, कोटा राजस्थान-324001 दूसरा पता - ए-60, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, अमानीशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर – 302016 4. शकीला बेगम पत्नी रमजान खान (जमानती) नि० - ए-६०-१, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, अमानीशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर - 302016 5. कौशल सेवक पुत्र अजय सेवक (जमानती), नि० ४०, राज एन्क्लेव के पीछे, बी/एस नन्दनवन, चौपासनी हाउजिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 दूसरा पता - 24, राज एन्क्लेव के पीछे, बी/एस नन्दनवन, चौपासनी हाउजिंग बोर्ड, जोधपुर-342008

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.11.2021 को रु. 39,91,906.00 (रुपये उन्तालिस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ छह मात्र दिनांक 11.11.2021 तक) दिनांक 12.11.2021 से आगे का व्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वस्ती यदि कोई हो।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (रिहायशी फ्लैट) के सभी भाग व हिस्से जो कि प्रथम तल, प्लॉट नं. ए-60, शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर-302016 में स्थित है। क्षेत्रफल 234 वर्ग यार्डस या 195.64 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उप निबन्धक जयपुर-।। के कार्यालय में बही नं. 01, जिल्द नं. 723, पेज नं. 2, क्रमांक 2011052007117 एवं प्रतिलिपि बही नं. 01, जिल्द नं. 2877, पेज नं. 12 से 23, दिनांक 20.06.2011 को शेर मीहम्मद पुत्र सुलतान खान ने शकीला बेगम पत्नी रमजान खान के नाम पर गिफ्ट डीड द्वारा दर्ज कराई है। सीमाएँ - उत्तर में प्लॉट नं. ए-60-ए,दक्षिण में प्लॉट नं. ए-60 का दक्षिणी हिस्सा,पूरब में प्लॉट नं. ए-60-1 एवं आम रास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं. एफ-58

प्राधिक्रत अधिकारी स्थान : जयपुर, राजस्थान दिनांक : 06.03.2024

info**edge**

इंफो एज (इंडिया) लिभिटेड सीआईएन : L74899DL1995PLC068021 । पंजी. कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 निगमित कार्यालय: बी-८, सेक्टर-१३२, नोएडा-२०१३०४ (उत्तर प्रदेश) । दूरभाष: ०१२०-३०८२०००;

फैक्स : 0120-3082095 वेबसाइट : www.infoedge.in; ईमेल : investors@naukri.com

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यानार्थ

एतदद्वारा इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांकित 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 25 सितंबर 2023 (सामृहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के अपने परिपत्र के माध्यम से कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुसार डाक मतपत्र / इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की क्रियाविधि के माध्यम से, साधारण व्यवसाय या व्यवसाय के विषयों के अलावा, जहां किसी भी व्यक्ति को सूने जाने का अधिकार है, सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले तत्काल प्रकृति के सभी निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 फरवरी 2024 को हुई अपनी बैठक में पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की सहमति लेने का प्रस्ताव रखा है।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजेगी और पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रति शेयरधारकों को नहीं भेजी जाएगी।

इसलिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवा लें :

क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा ई-मेल पते का पंजीकरण :

कंपनी के वे सदस्य जिनके पास कंपनी के शेयर भौतिक रूप में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे लिंक : https://liiplweb.linkintime.co.in/ EmailReg/ Email Register.html पर क्लिक करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत करवा सकते हैं और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, फोलियो नंबर, प्रमाणपत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जैसे विवरण उपलब्ध करायें और पैन, आधार कार्ड, शेयर प्रमाणपत्र और फॉर्म आईएसआर–1, आईएसआर-2 की छवि पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप (1 एमबी तक) में अपलोड करें। शेयरधारकों का विवरण जमा करने पर शेयरधारक को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापन के लिए लिंक में दर्ज करना होगा।

ख. डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा ई-मेल पते का स्थायी पंजीकरण : यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

(डीपी) के साथ डिमटेरियलाइज्ड होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई–मेल पता पंजीकृत करें। ग. डीमैटीरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा ई—मेल पते का अस्थायी पंजीकरण : कंपनी के सदस्य जिनके पास डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में कंपनी के शेयर हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे लिंक : https://liiplweb.linkintime.co.in/ EmailReg/EmailReg/ E-mail Register.html पर क्लिक करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप में अपने ई-मेल पते पंजीकृत करवा सकते हैं। और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी / पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जैसे विवरण प्रदान करें और सीएमएल, पैन, आधार कार्ड और फॉर्म आईएसआर-1 की छवि पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप (1 एमबी तक) में अपलोड करें। शेयरधारकों का विवरण जमा करने पर शेयरधारक को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे

भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक सहायता अनुभाग के rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं या टेलीफोन नंबर : 022-49186000 पर कॉल

सत्यापन के लिए लिंक में दर्ज करना होगा।

जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पहले ही पंजीकृत कर लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / कंपनी के आरटीए के साथ मान्य रखें।

पोस्टल बैलेट सूचना सभी शेयरधारकों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर उचित समय पर भेजा जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड जया भाटिया कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सम्मन वास्ते करारवाद तनकीह तलव (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय श्रीमान उदयप्रताप सिंह पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट सं0-2, कासना, गीतमबुद्धनगर उ०४०

सिविल वाद (कमर्शियल) सं0-234/2023 बैंक आफ बड़ीदा, ए बोड़ी कारपोरेट, ड्यूली कन्स्टीटयुटिड अण्डर द बैंकिंग कं० (एक्यूशन एण्ड ट्रांसफर आफ अण्डरटेंकिंग) एक्ट 1970 हेंड आफिस माण्डवी—बढ़ौदा, व शाखाये सम्पूर्ण भारतवर्ष मे व अन्य स्थान ग्रीन इण्डिया पैलेस दीपत विहार लेबर चौक खोडा कालोनी गाजियाबाद यू०पी० द्वारा चीफ मैनेजर व अधिकृत प्रतिनिधि

आधार नं०-इंमेलः khora@bankofbaroda.com

गियुष पुष्पक पुत्र श्री एस०एन०पी० केसरी पता-डी-203, सै0-47, नोएडा, गीतमब्द्धनगर उ०प्र०-अन्य पता- डी-55, सै0-48, नोएडा, गीतमबुद्धनगर

अन्य पता- बी-270, सै0-50, नोएडा गीतमबुद्धनगर

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश वाद दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14.03.2024 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या 'मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकाई वाकिफ किया गया हो और कुछ उमराई अहम मृतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके. हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे और आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तोवज पेश

बरवक्त मेरे दस्तरव्र और मुहर अदालत के आज तारीख 18.01.2004 ईं० जारी किया गया।

Can Fin Homes Ltd

हस्ताक्षर / मृन्सरिम

ऋण वसली न्यायाधिकरण-।।, दिल्ली चतुर्थं तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नेयमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के

टीए सं. 1238/2023 दिनांक 26-02-2024 पजांब नैशनल बेंक

दीपक इंजीनियरिंग वर्क्स एवं अन्य

1. वीपक इंजीनियरिंग वर्क्स 2. श्रीमती प्रवीण यादव, दोनों प्लॉट नं : केएच नं. 430-431, गली नं. 2, कैलाश परी. नसीरपुर के पास, नई दिल्ली—45

तबकि उपर्युक्त वादी ने आपके विरुद्ध **रूपये** 50,21,570.57 (रु. पचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ सत्तर और सत्तावन पैसे मात्र) की वसूली हेतु वाद दायर कर रखा है और प्राधिकरण सन्तुष्ट हैं कि आपको साधारण तरीकें से यह नोटिस नहीं दिया जा सकता है, कि आपको साधारण तरीके से यह गोटिस नहीं दिया जा शकता है, अतः इस नोटिस को प्रकाशित करवा कर यह नोटिस

देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 22.05.2024 को प्रातः 10.30 बजे प्राधिकरण के समक्ष मुचित रहे कि यदि आप उपरोक्तानुसार तय दिन प्तमय पर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं र गापकी अनुपरिधाति में सुनवाई कर बाद को निर्णित

सभी मामलों को वीखियो कॉन्फ्रेंसिंग और भौतिक व नाध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:— सभी अधिवक्ता/वादी सिरको वेदेवस एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रार द्वारा ाप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगर्ल तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएँगा। (iii) किसी भी जानकारी हेतु, एउवीकेंट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 23748478 पर

संपर्क कर सकते हैं। मेरे डरतादार और इस न्यायाधिकरण की मोडर के तहत 26 फरवरी, 2024 को विया गया। प्राधिकरण के आदेशानुसार सहायक अधिकारी, डीआरटी - 11, दिल्ली

केन फिन होम्स लिमिटेड

प्रथम तल, रेवाड़ी कॉ-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर, निकट हनमान मंदिर, सोहना रोड, धारुहेड़ा (जिला-रेवाड़ी), हरियाणा फोनः 01274-242381, मो. 7625079165 ई-मेलः dharuhera@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम ८(१)] अचल सम्पत्ति के लिए

आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सचना दिनांकित 01.01.2024 को जारी की थी जिसमें उधारकर्ता श्री राजीव सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह और श्री रोहित कुमार पुत्र श्री बलवंत सिंह और श्रीमती अमनदीप कौर **पत्नी श्री राजीव सिंह** (उधारकर्ता) और **श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मीना राम** (गारंटर) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 26,41,201 / – (रुपए छब्बीस लाख इकतालिस हजार दो सौ एक मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीखं से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त अग्रिम ब्याज के साथ, चुकाने की मांग की गई थीं। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 04 मार्च 2024 को प्राप्त कर लिया है।

नुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, आधानयम का घारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया

विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 26,41,201/- (रुपए **छब्बीस लाख इकतालिस हजार दो सौ एक मात्र)** और आगे के ब्याज के प्रभाराधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नंबर 111 खसरा सं. 5574 / 15 (2—11—0), 14(4—0—0), विष्णु गार्डन, निकट सूरज पब्लिक स्कुल, राजेन्द्र पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

पर्वः मकान सं. 110, पश्चिमः मकान सं. 112

तिथिः 05.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड स्थानः धारुहेडा

प्रपत्र—'जी' (पुनः जारी) अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण

माउंटेन मीडो हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड का नई दिल्ली में मोटल उद्योग परिचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट देनदार का नाम माउंटेन मीडो हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. सीआईएन:U74899DL1993PTC056571|पैन:AACCM9855G पंजीकृत कार्यालयः म. नं.–196, दीपाली एन्क्लेव, पंजीकृत कार्यालय का पता पीतमपुरा, दिल्ली -110034 भारत वेबसाइट का युआरएल लागु नहीं उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश | कॉर्पोरेट देनदार के पास ग्राम खामपुर, नई दिल्ली में अचल संपत्तियां रिधत हैं 18 बीघा और 15 बिस्वा कृषि भूमि हैं मुख्य उत्पादों / सेवाओं की

कॉर्पोरेट देनदार ने वित्त वर्ष 2021—2022 में कोई राजस्व अर्जित नहीं किया है और उसके बाद का विवरण वर्तमान मुख्य उत्पादों की मात्रा और मृत्य / पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं कर्मचारियों / कामगार की संख्या फिलहाल विवरण उपलब्ध नहीं है दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय ibc.mountainmeadows@gmail.com

विवरण (शेड्यूल के साध), लेनदारों पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है की सूची सहित अधिक विवरण युआरएल पर उपलब्ध हैं: संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत ibc.mountainmeadows@gmail.com

समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है अभिरूचि की अभिव्यवित की प्राप्ति हेत् 12 मार्च 2024

संगावित समाधान आवेदकों की अंतरिम 22 मार्च 2024 सुची जारी करने की तिथि

अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां 27 मार्च 2024 प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि संभावित समाधान आवेदकों की 06 अप्रै ल 2024 अंतिम सुची जारी करने की तिथि

संभावित समाधान आवेदकों को सचना 06 अप्रै ल 2024 ज्ञापन, मृल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने समाधान योजनाएं जमा करने की 06 मई 2024

ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ibc.mountainmeadows@gmail.com ईमेल आईडी

उमेश गृप्ता तेथि : 05.03.2024 समाधान प्रोफेशनल माउंटेन मीडो होलिडेज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-18/11431

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

		ाटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ धेत विवरण
1.	7 AM 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	अर्जुन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24 जनवरी, 1995
3.		रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1995PLC064675
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यां लयः सी—9 / 9366, वसंत कुंज, नई दिल्ली—110070
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	माननीय एनसीएलटी दिल्ली पीठ (कोर्ट॥) ने 22 फरवरी, 2024 को आदेश सुनाया। हालांकि, आईआरपी को 5 मार्च 2024 को आवेदक वित्तीय ऋणदाता से आदेश प्राप्त हुआ।
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	01 सितंबर 2024
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	विक्रम बजाज पंजी. सं::IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-2017/10003 एएफए वैधता: 18 अक्टूबर 2024 तक
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	214, टावर ए. स्पेजएज, सैक्टर 47, गुड़गांव — 110034 ईमल: bajaj.vikram@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	214, टावर ए, स्पेज़एज, सैक्टर 47, गुड़गांव — 110034 ईमेल : cirp.arjun@rediffmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	19 मार्च, 2024
	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अमिनिश्चत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफंशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपन्न और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण	(क) वेय लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

दद्वारा सुचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी 2024 को अर्जान **इंडस्ट्रीज लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है । अर्जुन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 19 मार्च 2024 को अथवा पूर्व अंतरिम

समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तृत करने की गांग की जाती है । वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक: 05.03.2024

स्थानः गुड़गाव

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, अर्जुन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकरण सं::IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-2017/10003

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] कब्जा सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में डॉएच्च बैंक एजी, इण्डिया (''बैंक''), पंजीकृत कार्यालय भूतल एवं 14वां तल, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हए माँग सुचना निर्गत की।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कथित तिथि को सांकेतिक/रचनात्मक कब्ज

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार यहां नीचे उल्लिखित राशि तथा खाते के तहत भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के लिए डॉएच्च बैंक एजी के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार/जमानती का	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना
नाम			की तिथि
मैसर्स हिंदुस्तान	स्व-निहित आवासीय संपत्तिः- 450 वर्ग मीटर माप वाली		21.03.2024
टेक्सप्रो प्राइवेट	भूमि पर निर्मित घर के साथ प्लॉट, क्रमांक 35 का		
लिमिटेड।	समस्त भाग, ब्लॉक नंबर एफ, सेक्टर 40 में स्थित, न्यू		कब्जा करने
('कर्जदार'), अंश	ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र, नोएडा, जिला 🕺	रिपये नौ करोड़	की तिथि
मल्टीकॉम, शिखा गर्ग,	गौतमबुद्ध नगर (यूपी), सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर की		04.03.2024
अंकित गर्ग और	ओरः प्लॉट नंबर एफ-34, सेक्टर 40, नोएडा, दक्षिण		
सुनीता गर्ग ('सह-	की ओरः प्लॉट नंबर एफ-36, सेक्टर 40, नोएडा, पूर्व		
कर्जदार')	की ओरः 9.0 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम की ओरः प्लॉट	·	
,	नंबर एफ-2, सेक्टर-40, नोएडा।	ब्याज।	
मैसर्स साक्षी लिंगरीज	1. स्व-निहित आवासीय संपत्तिः- फ्लैट नंबर 1601,	01.03.2024 को	मांग सूचना
प्राइवेट लिमिटेड	टावर नंबर ओसी-01 में 15वीं मंजिल पर, 'ऑरेंज	रु. 3,11,61,818/−	की तिथि
('कर्जदार'), श्री पवन	काउंटी' प्रोजेक्ट में, प्लॉट नंबर जीएच-4, अहिंसा	(रुपये तीन करोड़	09.11.2023
गुप्ता, श्री गीता गुप्ता	खंड 1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, सुपर एरिया 2655 वर्ग	ग्यारह लाख	
तथा श्री प्रतीक गुप्ता	फीट है, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर से: प्रवेश, दक्षिण	इकसठ हजार आठ	कब्जा करने की तिथि
9	सेः खुला, पूर्व सेः सीढ़ी, पश्चिम सेः लिफ्ट।	सौ अठारह मात्र)	04.03.2024
	2. स्व-निहित आवासीय संपत्तिः- फ्लैट नंबर 1603,	और उस पर	04.03.2024
	टॉवर नंबर ओसी-01 में 15वीं मंजिल पर, 'ऑरेंज	ब्याज।	
	काउंटी' प्रोजेक्ट में स्थित, प्लॉट नंबर जीएच-4,		
	अहिंसा खंड 1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, सुपर एरिया		
	2772 वर्ग फीट है और इसकी सीमा इस प्रकार है:		
	उत्तर से प्रवेश, दक्षिण से खुला, पूर्व से सीढ़ी, पश्चिम		
	से लिफ्ट।		
तिथि : 06 मार्च, 2024		नतांश कुमार पाल – ३	अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली		3	डॉएच्च बैंक ए.जी.

🤜 Oriental | United

मंडल कार्यालय सस्त्र केन्द्र, 1–2, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा, Ph. No. 0562-2525895 Fax: 0562-2850131 E-Mail: cs8182@pnb.co.in मॉग नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्टेक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरैस्ट एक्ट, 2002 की धारा—13(2) के अन्तर्गत नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा—13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणीयों / गारन्टरों को मांग नोटिस रजिस्टर्ड / स्पीड डाक द्वारा प्रेषित किये थे। परन्तु उक्त माँग नोटिस बिना डिलीवरी वापिस आ गये। इस मांग नोटिस की प्रति बधंक सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर बैंक द्वारा चस्पा कर दी गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित ऋणीयों / गारन्टरों से निम्नलिखित देनदारी, संविदात्मक ब्याज / खर्चों इत्यादि का भूगतान इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अदा करने की नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यदि वे उक्त देय राशियां इस माँग नोटिस के अनुसार भूगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक उक्त एक्ट की धारा–13 उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का प्रयोग करेगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा-13(13) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना बैंक की लिखित अनुमित के ऋणी / गारंटर / बंधककर्ता प्रतिभूति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे सूची में दिया गया है, की बिक्री लीज एवं अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

ऋणियों / गारण्टरों / का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	नोटिस की रकम
शाखा— सिकन्दरा श्री डिम्पल जैन पुत्र श्री छोटे लाल जैन (ऋणी एवं बंधककर्ता) पताः मकान नं0 सी—362,		024	₹50 25,05,628 .1
सेक्टर—सी—1, शास्त्रीपुरम योजना, आगरा— 282007, श्री डिम्पल जैन पुत्र श्री पुत्र श्री छोटे लाल जैन पताः मकान नं0 9/82 एल, यमुना ब्रिज स्टेशन रोड आगरा—282006, श्री डिम्पल जैन पुत्र श्री पुत्र श्री छोटे लाल जैन पताः फ्लैट नं0 101, मनु अपार्टमेंट, टेगोर नगर, दयाल बाग, आगरा—282006	लोहामंडी वार्ड तहसील एवं जिला— आगरा उ०प्र0—282007, एरियाः 60 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री डिम्पल जैन के नाम। चौहद्दी:— पूर्व— रास्ता 9 मीटर चौड़ा एवं निकास, पश्चिम— सी टाईप प्लॉट, उत्तर—	13.0;	दि. 31.01.202 तक + देर ब्याज एवं अन् खर्चे
	ाग्य नगर (619200), आगरा		
श्री धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता पताः पलैट नं० 101, अपना घर रेजीडेंसी, शांति नगर, कमला नगर, तहसील एवं जिला आगरा, श्री धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता पताः पलैट नं० 102 अपना घर रेजीडेंसी, शांति नगर, कमला नगर, तहसील एवं जिला आगरा, श्री अरूनदीप गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता, श्रीमती अल्पना गुप्ता पत्नी श्री राम स्वरूप गुप्ता, श्रीमती अल्पना गुप्ता पत्नी श्री राम स्वरूप गुप्ता दोनों का पताः मकान नं0—71, ब्रिज धाम फेज—द्वितीय, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश— 282005	पर), स्थित प्लॉट नं० 7 एम0आई०जी० अपना घर रेजीडेंसी, शांति नगर, मूघ का बाग मौजा घटवासन, वार्ड हरीपर्वत तहसील एवं जिला आगरा, एरियाः 110.55 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता के नाम। चौहद्दी:— पूर्व— मार्ग एवं फ्लैट नं० 102, पश्चिम— मकान एम0आई०जी० नं० 8, उत्तर— रोड 9 मीटर चौड़ा, दक्षिण— मकान एम0आई०जी० 2	17.02.202	रू0 42,07,896.0 दि. 31.01.202 तक + देर ब्याज एवं अ खर्चे
शाखा– तह	सील सदर (523910), आगरा		
श्री अमित शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा (ऋणी एवं बंधककर्ता) पताः मकान नं0 ए—77, शिवानी धाम, निकट जग जीवन नगर, मौजा नराइच, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा।	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 1904 एवं 1908 ख प्लॉट नं0 ए—77, शिवानी धाम निकट जग जीवन नगर, मौजा नराइच तहसील एत्मादपुर जिला आगरा। एरियाः 50.39 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री अमित शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा के नाम। चौहद्दी:— पूर्व— जितेन्द्र शर्मा का प्लॉट ए—78, पश्चिम— प्लॉट बन्नी, उत्तर— रोड 20 फीट चौड़ा, दक्षिण— सरोज देवी।	16.02.202	रू0 1,10,911.8 (दि. 31.01.202 तक + देर ब्याज एवं अ खर्चे
दिनांकः 06.03.2024	स्थानः आगरा	प्रो	धिकृत अधिका

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010 रिजस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006

जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 व नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) वे अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह-ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

B			
खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता श्री संजय मदान (ऋणी) पुत्र श्री ओम प्रकाश पताः 1. मकान नं0 2063 गली नं0—1. निकट बरात घर ज्वाला नगर, सहारनपुर, उ0प्र0— 247001, पताः 2. 5 / 2885—ए, राधा विहार कॉलोनी सहारनपुर, उ0प्र0—247001, पताः 3. लक्ष्मी धाम कॉलोनी, जन्ता रोड गली नं0 3 निकट पंकज नमकीन भंडार सहारनपुर, उ0प्र0—247001, श्रीमती ममता (सह—ऋणी) पत्नी श्री संजय मदान पताः 1. मकान नं0 2063 गली नं0—1. निकट बरात घर ज्वाला नगर, सहारनपुर, उ0प्र0— 247001, पताः 2. 5 / 2885—ए, राधा विहार कॉलोनी सहारनपुर, उ0प्र0— 247001, पताः 3. मकान नं0 2063 गली नं0—1. निकट बरात घर ज्वाला नगर, सहारनपुर, उ0प्र0— 247001	बंधक सम्पत्तियों का विवरण भूमि/ सम्पत्ति मकान नं0 5/2885/ए, प्लॉट नं0 80 पर, स्थित खसरा नं0 582 मिन, दारा मिल्काना बैरून, परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर दर आबादी राधा विहार कॉलोनी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश— 247001, एरियाः 81.61 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती ममता के नाम। चौहद्दीः पूरब— नेत्रपाल का मकान, पश्चिम— सोनू का मकान, उत्तर— अन्य व्यक्ति का मकान, दक्षिण— 20 फीट या 6.09 मीटर चौड़ा रोड।	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि क् ० 25,84,969 दि. 17.11.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 17.11.2023 29.02.2024	
श्री प्रेमशंकर (ऋणी) पुत्र श्री वीरेन्द्र, पता— 1. वार्ड सं0—3, कुंवर गांव, जिला—बदायूं, उ०प्र0—243601, श्रीमती कलावती (सह—ऋणी) पत्नी श्री वीरेन्द्र पता— मकान सं० 250, टी.ए. वार्ड सं० 5, कुंवर गांव, जिला—बदायूं, उ०प्र0—243601	गांव, बदायूं, ओनला रोड़, परगना एवं जिला बदायूं, उ०प्र0, एरिया— 41 वर्ग मी.,	रू0 9,86,517.01 रू. 1,11,123.00 दि. 08.11.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 18.11.2023 29.02.2024	
श्री सूरज पाल (ऋणी) पुत्र श्री दीना नाथ कश्यप, पता— 1. ग्राम—परेवा अनूप, पोस्ट—पिपरिया मंदन, बारखेड़ा काटा, पीलीभीत, उ0प्र0—262203, पता— 2. गाटा सं0 666 / 0, ग्राम—पिपरिया मंदन, परगना एवं तहसील—बीसलपुर, जिला—पीलीभीत, उ0प्र0—262203	भूमि/सम्पत्ति रिहायशी/व्यवसायिक स्थित गाटा सं0 666/0, ग्राम—पिपरिया मंदन, परगना एवं तहसील—बीसलपुर, जिला— पीलीभीत, उ०प्र0—262203, एरिया— 153 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री सूरज पाल के नाम। चौहद्दी— पूरब— सूरज की खाली सम्पत्ति एवं राजेन्द्र की दुकान, पश्चिम— 20 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर— 14 फीट चौड़ी खरगापुर सड़क, दक्षिण— सूरज पाल का मकान।	रू0 1955158.00 रू0 28368.00 दि. 30.11.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 12.12.2023 29.02.2024	
दिनांकः 06.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिए			

नई दिल्ली

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा

दिनांक : 05 मार्च, 2024